

प्रेस नोट दिनांक 27.11.2020

थाना प्रेमनगर जनपद बरेली

थाना प्रेमनगर #bareillypolice द्वारा ग्रीन चिल्ली रेस्टोरेन्ट में 11 अभियुक्तों व 01 नाबालिग युवक को हुक्का पीते किया गिरफ्तार, कब्जे से दो हुक्के चालू हालत में एवं तम्बाकू फ्लेवर की डिब्बियां बरामद ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रेस्टोरेन्ट एंव बार में हुक्का को पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है, इसी क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली ने जनपद बरेली में विभिन्न स्थानों पर स्थापित रेस्टोरेन्ट एवं बार पर समय समय पर चैकिंग किये जाने व किसी भी अनियमितता के पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे । दिनांक 26.11.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम बरेली के पर्यवेक्षण में थाना प्रेमनगर क्षेत्र में स्थापित रेस्टोरेन्ट एवं बार की आकस्मिक चैकिंग की गयी। ग्रीन चिल्ली रेस्टोरेन्ट निकट डी.डी.पुरम पेट्रोल पम्प में उ0नि0 मदन सिंह द्वारा मय टीम के दबिश दी गयी । दबिश के दौरान रेस्टोरेन्ट के अन्दर कम उम्र के बच्चे हुक्का पीते हुए मिले, मौके पर ही सभी को गिरफ्तार किया गया । मौके पर दो हुक्के चालू हालत में एवं तम्बाकू फ्लेवर की डिब्बियां बरामद हुयी । उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पर मु0अ0स0 667/2020 धारा 188/269/270 भादवि, 3 महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 6 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का प्रतिषेध अधिनियम एवं 77 किशोर न्याय अधिनियम पंजीकृत किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

अपराध करने का तरीका:- अभि0गणों द्वारा रेस्टोरेन्ट में हुक्का का सेवन करना ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1.शहनवाज पुत्र जहीर खान निवासी आलोक नगर थाना इज्जतनगर, बरेली ।
- 2.सलमान पुत्र नईम अहमद निवासी मलूकपुर थाना किला, बरेली ।
- 3.दानिश पुत्र सलीम निवासी मलूकपुर थाना किला, बरेली ।
- 4.तालिब पुत्र नासिर निवासी बिहारीपुर थाना कोतवाली, बरेली ।
- 5.असलम पुत्र शरे अहमद निवासी गुलामनगर थाना किला, बरेली ।
- 6.शावेज पुत्र जावेद निवासी बिहारीपुर थाना कोतवाली, बरेली ।
- 7.रियाज पुत्र समीर निवासी नगरिया थाना इज्जतनगर, बरेली ।
- 8.छोटू खान पुत्र अली रजा निवासी आलोकनगर थाना इज्जतनगर, बरेली ।
- 9.मो0 फैजान पुत्र शान अहमद निवासी जकीरा थाना किला, बरेली ।
- 10.फैज पुत्र जाकिर निवासी काइन इन्कलेव थाना बारादरी, बरेली ।
- 11.चंगेज पुत्र अजमल निवासी नाला मलूकपुर थाना किला, बरेली (रेस्टोरेन्ट संचालक) ।
- 12.एक युवक नाबालिग ।

बरामदगी:-

1. दो हुक्के चालू हालत में
2. दो डिब्बियां फ्लेवर युक्त तम्बाकू की
3. दो पैकेट टिक्की कोयला(01 पैकेट बन्द व 01 पैकेट खुला)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 मदन सिंह थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
2. का0 2191 रसविन्दर थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
3. का0 1081 अमित कुमार थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
4. का0 1080 सुमित कुमार थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
5. का0 294 संजू थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।

सोशल मीडिया सैल
जनपद बरेली ।